



**TRIVENI TURBINE LIMITED**  
**CORPORATE OFFICE**

8<sup>th</sup> Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida - 201301, U.P., India  
T.: +91 120 4308000 | F : +91 120 4311010-11  
www.triveniturbines.com

**By E-filing**

REF:TTL:SE:

Date: May 17, 2024

BSE Limited, P.J. Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 Thru: BSE Listing Centre	National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 Thru: NEAPS
<b>STOCK CODE: 533655</b>	<b>STOCK CODE: TRITURBINE</b>
<b>Sub: Newspaper advertisement pertaining to Audited Financial Results for the fourth quarter and financial year ended on March 31, 2024</b>	

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we have enclosed herewith copies of the newspaper advertisements published on May 17, 2024 providing extract of Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and financial year ended March 31, 2024. The advertisements are published in:

- i) Business Standard (English) and (Hindi); and
- ii) Business Line (English)

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours' faithfully,

**For Triveni Turbine Limited**

**Pulkit Bhasin**  
Company Secretary  
M. No. A27686

Encl: A/a



PHOTO: PTI



People collect free drinking water from a tanker due to the ongoing water crisis in Bengaluru. The city's population has tripled since 1990, and it is estimated to require as much as 2,632 MLD of freshwater — half of this comes from the Kaveri and the rest is groundwater

# WATERED DOWN

As Bengaluru segues from a parched summer to torrential rains, citizen groups and authorities evaluate the city's future as India's IT capital

RANJITA GANESAN  
Mumbai, 16 May

In April, Nithin Kamath of Zerodha posted a series of tweets drawing attention to Bengaluru's escalating water crisis. He mentioned a possible solution: Turning wastewater into drinkable water, which the city-based Boson White Water (BWW) is already doing. The next day, phones at BWW erupted with calls. Apartment complexes, standalone homes, industries

— everyone wanted to know more. Though BWW puts partially treated water through an 11-stage system until it comes out highly safe, founder Vikas Brahmavar understands there are miles to go before anyone is willing to drink what was once sewage. "Some years ago, we were supposed to supply our water in an apartment building at 10 am. Very quickly, WhatsApp groups were filled with residents saying they were itching and coughing, but the funny thing is, our water had been delayed that morning and we didn't actually start supplying

until a week later," says Brahmavar, who moved back from the United Kingdom 15 years ago to start up in India's IT capital. He remains hopeful: If industries start using high-quality treated water, the psychological barrier could change for people too. "Because water is so basic, perception is difficult to handle. Any problem people experience will be attributed to it," says Brahmavar. By all accounts, Bengaluru's water system needs inventive upgrades. The city's population has tripled since 1990, and it is estimated to require as

much as 2,632 MLD (million litres per day) of freshwater — half of this comes from the Kaveri and the rest from groundwater. But even as its outskirts are expanding with residential developments, they rely too heavily on groundwater and remain exposed to infrastructure gaps. This became particularly apparent this year, amid heat wave conditions and delayed rains. "The maximum population is in the periphery, which is fast developing and is totally groundwater dependent," says Rashmi Kulranjan, a research associate at WELL Labs and a PhD scholar at the Ashoka Trust for Research in Ecology and Environment. "The city sits on hard terrain, so water is collected mostly in the cracks and sub-surface area. We had three years of rainfall, but with just one dry year there was severe shortage because we can't recharge groundwater at the rate at which we are extracting."

## Lost view

So how did a city known for abundant rains and a wealth of lakes get here? As Kulranjan points out, the terrain is hard and, given increasing construction, much of the rainwater flows into drains rather than seeping into the ground. That leaves the lakes arid. The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) recently revealed that out of around 800 lakes under the BBMP and Bengaluru Urban limits, 125 have dried and 25 are at risk of drying.

Water struggles have not dulled demand to live and work in the city. With offices calling employees back-to-work full time or on a hybrid basis, Bengaluru's rental yield was the highest among Indian cities in the first quarter of 2024, says Anarock Property Consultants.

Demand has not only breached pre-pandemic levels but gone much above it. Some localities, IT hubs such as Sarjapur Road and Whitefield, for instance, have experienced a more than 60 per cent rise in rentals from the 2021 levels. This trend is likely to continue in the coming quarters, says Anarock Group Vice Chairman Santhosh Kumar, "given that Bengaluru continues to remain a vibrant market with ample job opportunities."

The posh apartments are often serviced by migrants who live in low-income pockets nearby. Kanaklata Parida, a domestic worker and single mother from Odisha, cooks in a dozen high-rise

homes in Bommanahalli. For two months, her well-heeled employers were prohibited from washing cars and their kitchens had water cuts for six hours. But now there is regular access to tanker water, the price of which is easily afforded by the residents.

"The rain is here but my problems have not gone away," Parida says. She has had to spend nearly ₹10,000 so far on buying water after taps ran dry in her four-storey neighbourhood at the end of February. The arid spell has cost her in other ways too — she missed two work days queuing up for water, and suffered an injury when her scooter skidded under the weight of 20-litre cans from the supermarket. At least three migrant families in her building packed up and returned home this summer.

One answer to boosting water for this rising population, experts agree, lies in history.

Bengaluru's founding father, Kempegowda, acting on his mother's advice, had planted trees and built a network of lakes and wells. In the last few years, civil society groups have joined hands to revive wells and recharge lakes. The India Cares Foundation, for example, has built or revived 315 rainwater recharge wells in the last five years that feed lakes in the state, including at Cubbon Park and Lalbagh. BBMP permissions are hard to get, so the foundation often works at lakes overseen by panchayats, says CEO Meena Dave.

"We started a few years ago, when there were reports asking if Bengaluru would become another Cape Town, saying it would run out of water in 2020. We had beautiful high rises promising a 'lake view' but nobody was taking time to do something for the lakes," Dave says.

At ₹ 75,000 per well, she notes that the investment pays off, and is affordable for communities. Corporate funds are helping. Royal Challengers Bengaluru, which is having a roller-coaster at this year's Indian Premier League, cheered fans by contributing to the revival of three city lakes through the programme.

## Multi-pronged network

This summer's intense difficulties compelled authorities to push

## LAKE VIEW

**Drained for desilting:** Bellandur, Varthur lakes

**Dried up:** Nallurahalli, Vibhutipura lakes

**At risk:** Sankey Tank

through policies that had been previously stuck in red tape. Unlike most cities, where sewage treatment is centralised, Bengaluru already has a wide decentralised network of 3,500 sewage treatment plants (STPs) across its apartment

complexes. This April, the Bangalore Water Supply and Sewerage Board allowed apartment complexes and gated communities to sell 50 per cent of their STP water for commercial use.

"My estimate is that 700 MLD of treated water is available and it is definitely going to grow more," says Satish Mallya, Vice President of the Bangalore Apartment Federation. "Half of it can be sold so 300 to 350 MLD can go to construction sites which need not use borewell water."

Mallya says the federation has further suggested investing in a pipeline network so that treated water can more efficiently be sent to industries. Dave of India Cares Foundation points to another possible use case: Diverting excess treated water from large apartments to low-income neighbourhoods for non-potable use.

Existing policies are marred by challenges, though. Rainwater harvesting was mandated in 2009 for residences built on a 30x40 feet site, but more than 39,000 such buildings prefer to pay the fines rather than set up the required infrastructure. Researcher Kulranjan notes that apartments have STPs, but they also need trained staff who can regularly monitor water quality. In her own field work, Kulranjan is looking at reviving lakes beyond Bengaluru, as that will secure "the cities of tomorrow."

Brahmavar's BWW estimates it has saved 945 million litres of water that would otherwise have gone to the drains over four years. "If we can map this water to the requirement of industries, they don't have to extract freshwater and buildings don't have to waste treated water. So if you save 100,000 litres, you are actually saving 200,000 litres," he says.

People are aware of the water wasted while using RO purifiers, because it is visible. "What we don't notice is the large volume of wastewater we generate that isn't visible — we need to start thinking about that," says Brahmavar.



### Statement of Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024

(₹ in lakhs, except per share data)

Particulars	Quarter ended		Year Ended	
	31-Mar-2024 (Audited)	31-Mar-2023 (Audited)	31-Mar-2024 (Audited)	31-Mar-2023 (Audited)
Total Income from Operations	45,805	36,976	1,65,394	1,24,755
Net Profit/(Loss) for the period before tax	10,144	7,333	35,779	25,550
Net Profit/(Loss) for the period after tax	7,620	5,562	26,949	19,287
Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7,726	5,637	27,236	18,982
Equity Share Capital	3,179	3,179	3,179	3,179
Other Equity			92,801	72,856
Earnings per share of ₹ 1/- each (not annualised)				
(a) Basic (in ₹)	2.39	1.73	8.47	5.97
(b) Diluted (in ₹)	2.39	1.73	8.47	5.97

#### Notes :

1. Summarised Standalone audited Financial Performance of the Company is as under :

Particulars	Quarter ended		Year Ended	
	31-Mar-2024 (Audited)	31-Mar-2023 (Audited)	31-Mar-2024 (Audited)	31-Mar-2023 (Audited)
Total Income from Operations	38,216	28,728	1,37,857	1,08,325
Profit/(Loss) before tax	7,998	5,101	28,373	19,537
Profit/(Loss) after tax	5,846	3,724	20,905	14,487
Total Comprehensive Income	6,013	3,865	21,204	13,944

2. The Board of Directors has recommended payment of final dividend @ 130% (₹ 1.30 per equity share of ₹ 1 each) for the financial year 2023-24, in addition to the interim and special dividend of 230% (₹ 2.30 per equity share of ₹ 1 each) paid during the current quarter. Final dividend is subject to approval of shareholders.

3. The above is an extract of the detailed format of audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 are available on the Stock Exchange's websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.triveniturbines.com).

For TRIVENI TURBINE LIMITED  
Sd/-

Place: Noida (U.P)  
Date : May 16, 2024

Dhruv M. Sawhney  
Chairman & Managing Director

Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase II Extension, Noida, U.P. - 201 305  
Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida - 201 301, U.P., India  
Website : www.triveniturbines.com, CIN : L29110UP1995PLC041834

"WILL TESLA DOMINATE THE INDIAN EV MARKET GOING AHEAD?"

"ONE MINUTE"

Get all updates on **BS News in ONE MINUTE**

To watch, visit [bit.ly/newsin1minute](https://bit.ly/newsin1minute) or scan the QR code





# ईआरपी के लिए बड़ी कतार

खुशबू तिवारी  
मुंबई, 16 मई



करीब एक दर्जन इकाइयों ने या तो ईएसजी रेटिंग प्रोवाइडर (ईआरपी) का लाइसेंस हासिल कर लिया है या फिर इसे हासिल करने की प्रक्रिया में हैं। बाजार शैशवावस्था में होने के कारण इस क्षेत्र में राजस्व का स्रोत सीमित नजर आ रहा है।

अभी तक बाजार नियामक सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों इक्रा, क्रिसिल और केयरएज के स्वामित्व वाली इकाइयों को ईआरपी पंजीकरण दिया है। इसके अलावा वोटिंग एडवाइजरी फर्म स्टेकहोल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज (एसईएस) की इकाई एएसईएस ईएसजी रिसर्च को भी पंजीकरण का सर्टिफिकेट मिल गया है। प्रॉक्सि एडवाइजरी फर्म आईआईएसजी (एसईएस) की इकाई एएसईएस ईएसजी रिसर्च को भी पंजीकरण का सर्टिफिकेट मिल गया है। प्रॉक्सि एडवाइजरी फर्म आईआईएसजी (एसईएस) की इकाई एएसईएस ईएसजी रिसर्च को भी पंजीकरण का सर्टिफिकेट मिल गया है।

स्कोरिंग मुहैया कराने वाली इकाइयों का नियामक के पास अनिवार्य तौर पर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया था ताकि पारदर्शिता और मानक बरकरार रहे। उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा कि ईआरपी दो मॉडल अपना सकते हैं : यूजर पे या इश्युअर पे। एक यूजर पे मॉडल फंड, बैंक या विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हो सकता है जबकि इश्युअर एक सूचीबद्ध कंपनी होगी। ईएसजी में निवेश ने विकसित दुनिया में बड़े पैमाने पर जोर पकड़ा है, लेकिन भारतीय बाजारों में ऐसा रुझान दिखना बाकी है। स्टेकहोल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज (एसईएस) के एमडी जे एन गुप्ता ने कहा कि शुरुआती उत्साह के बाद यहां बहुत ज्यादा कंपनियों के लिए

गुंजाइश नहीं बनेगी क्योंकि इसके बहुत ज्यादा सबस्क्राइबर नहीं हैं। भारत में सूचीबद्ध कंपनियों को ईएसजी रेटिंग हासिल करने की जरूरत नहीं होती। इस बीच अगर किसी फंड के लिए उन कंपनियों में निवेश करना अनिवार्य हो जिसका ईएसजी मानकों पर ज्यादा स्कोर हो तो वह किसी ईआरपी की सेवाएं ले सकता है। भारत में ईएसजी स्कोर के लिए बहुत ज्यादा मांग नहीं है, लेकिन रेटिंग प्रदाताओं का कहना है कि वे इसे विकसित करने पर काम कर रहे हैं। साथ ही ज्यादा कंपनियां तथाकथित बिजनेस रिपोर्टिंग एंड सर्स्टेनिबिलिटी रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) की ओर बढ़ रही हैं, लिहाजा उनकी सेवाओं की मांग

जोर पकड़ेगी। उद्योग के प्रतिभागियों का मानना है कि बेहतर आंकड़ों की उपलब्धता के साथ कंपनियां ज्यादा पूंजी आकर्षित करने में सक्षम होंगी। इक्रा के कार्यकारी उपाध्यक्ष (बिजनेस डेवलपमेंट) और चीफ बिजनेस ऑफिसर एल. शिवकुमार ने कहा कि अभी भारत में शायद कुछ ही ईएसजी फंड होंगे लेकिन ईएसजी रेटिंग के लिए मांग वैश्विक फंडों की तरफ से बढ़ने वाली है। इनमें प्राइवेट इक्विटी फर्म भी शामिल हैं क्योंकि उनके लिए सर्स्टेनिबिलिटी अहम स्तंभ है। उनमें से कई फर्म सीएक्सओ के स्तर पर विशेष रूप से बनाए गए सर्स्टेनिबिलिटी ऑफिसर रखने पर जोर दे रही हैं। बिजनेस के बने रहने के लिए उद्योग को अब लगता है कि वित्तीय आंकड़ों की तुलना में ईएसजी स्कोर या अतिरिक्त रिपोर्टिंग फंडामेंटल के लिहाज से अहम मानक है। कई का मानना है कि कंपनियों पर ऐसे स्कोर का जोर देने के लिए हितधारक या निवेशक होना चाहिए। सेबी की अनिवार्यताओं के मुताबिक यह रेटिंग भारत केंद्रित और यहां के नियामकों की तरफ से तय मानकों पर आधारित होगी।

## अमेरिकी महंगाई कम देसी बाजार को दम

पृष्ठ-1 का शेष

विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में शेयरों के भाव अनुकूल होने के कारण विदेशी निवेशक भारत से रकम निकालकर वहां लगा रहे हैं। मगर विशेषज्ञों को लगता है कि अमेरिका में मुद्रास्फीति के हालिया आंकड़े उभरते बाजारों के शेयरों के लिए सकारात्मक हो सकते हैं। अमेरिका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति मार्च की तुलना में 0.3 फीसदी बढ़ी है। पिछले तीन महीने में पहली बार मुद्रास्फीति के आंकड़े अनुमान से कम रहे हैं। इससे निवेशकों में उम्मीद जगी है कि इस साल कम से कम दो बार दरों में कटौती की जा सकती है। नोमुरा ने एक नोट में कहा है, 'हमारे हिसाब से लंबे समय तक ब्याज दरों ऊंची बनी रहने की उभरते बाजारों की चिंता इन आंकड़ों को देखकर थोड़ी कम होनी चाहिए और एशियाई शेयरों को राहत मिलनी चाहिए।' मार्सेलस इन्व्स्टमेंट मैनेजर्स के संस्थापक सौरभ मुखर्जी ने कहा, 'अमेरिकी मुद्रास्फीति कम हो रही है, जिससे अमेरिकी चुनावों से पहले दर में कटौती का रास्ता साफ होगा।' एचडीएफसी बैंक का शेयर 1.5 फीसदी चढ़ा और सेंसेक्स एवं निफ्टी की तेजी में इसने सबसे ज्यादा योगदान दिया। इन्फोसिस में भी 2.3 फीसदी तेजी आई। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा और एयरटेल में भी अच्छी तेजी रही।

## महिंद्रा करेगी 37,000 करोड़ रुपये का निवेश

पृष्ठ-1 का शेष

महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी व सीईओ अनीश शाह ने कहा कि ईवी का मार्जिन भी पेट्रोल-डीजल इंजन वाले वाहनों की तरह ही होगा। शुरुआती दौर में ईवी पर मार्जिन कम रहेगा मगर बाद में वह बढ़ता जाएगा। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल कंपनी मुनाफे में कब तक आएगी। नए वाहन उतारने और 2.20 लाख वाहनों के पिछले ऑर्डर पूरे करने के लिए कंपनी क्षमता बढ़ाने पर लगातार जोर दे रही है। जेजुरिकर ने कहा कि वित्त वर्ष 2020 तक कंपनी हर महीने 19,000 एसयूवी बना सकती थी, जो संख्या अब बढ़कर 49,000 वाहन प्रति माह हो गई है। वित्त वर्ष 2025 के अंत तक उत्पादन क्षमता बढ़कर 49,000 वाहन प्रति माह और इसके अगले साल 72,000 वाहन प्रति माह हो जाएगी। जेजुरिकर ने स्पष्ट किया कि वित्त वर्ष 2025 के अंत तक हर महीने 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन भी बनने लगे और उसके अगले साल ईवी उत्पादन क्षमता में 8,000 प्रति माह का इजाफा किया जाएगा। महिंद्रा हर महीने 9,000 एसयूवी एक्सओ बना सकती है और जरूरत पड़ने पर इसकी क्षमता बढ़ाकर 10,500 वाहन प्रति माह की जा सकती है। वित्त वर्ष 2025 से 2027 के लिए कंपनी ने कुल 27,000 करोड़ रुपये का निवेश की योजना बनाई है, जिनमें से 8,500 करोड़ रुपये डीजल-पेट्रोल से चलने वाले एसयूवी पर खर्च किए जाएंगे। वाणिज्यिक वाहनों (ईवी, ट्रक एवं बसों पर) पर 4,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। वित्त वर्ष 2024 में वाहन कारोबार की आय 43.1 फीसदी चक्रवृद्धि दर से बढ़ी है।

## चुनाव के दौर में भी आती रही हैं नई फंड योजनाएं

अभिषेक कुमार  
मुंबई, 16 मई

देसी म्युचुअल फंडों की तरफ से न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) की पेशकशों का आमतौर पर चुनाव के चलते होने वाले उतार-चढ़ाव का खास फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि कुछ फंडों का मानना है कि 4 जून को चुनाव नतीजों के बाद खरीदारी का बेहतर मौका मिल सकता है। अभी पांच ऐक्टिव इक्विटी व हाइब्रिड न्यू फंड ऑफर - एसबीआई ऑटोमोबाइल ऑप्टिमाइजेशन फंड, सैमको स्पेशल ऑप्टिमाइजेशन फंड, व्हाइटओक कैपिटल स्पेशल ऑप्टिमाइजेशन फंड, बजाज फिन्सेस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और बड़ौदा वीएनपी पारिबा रिटायरमेंट फंड आवेदन के लिए खुले हुए हैं। एनएफओ की अवधि पूरी होने के बाद ज्यादातर फंड इस रकम का निवेश मोटे तौर पर चुनाव के बाद ही करेंगे। इसके अलावा, चार पैसिव इक्विटी पेशकश भी आवेदन के लिए खुली हुई हैं।

## दुनिया के फंड प्रबंधकों की पसंद में भारत भी

बोफा सिक्वोरिटीज का कहना है कि दुनिया भर के फंड प्रबंधक करीब तीन साल में इक्विटी पर सबसे ज्यादा (नवंबर 2021 से) उल्हासित हैं। उनके उत्साह की वजह प्रति शेयर आय (ईपीएस) वृद्धि के बजाय केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। बोफा सिक्वोरिटीज के सर्वे में शामिल 18 प्रतिशत फंड प्रबंधक भारतीय इक्विटी पर ओवरवैट है, हालांकि उत्साह का स्तर मार्च 2025 के स्तरों से घटा है। बोफा का कहना है कि मई में वैश्विक फंड प्रबंधकों के पास नकदी का स्तर घटकर 4 प्रतिशत के साथ तीन साल के निचले स्तर पर आ गया है और जनवरी 2022 के बाद से ही शेयरों में आवंटन सबसे ऊंचे स्तर पर है।

Bank of Maharashtra  
प्रधान कार्यालय: "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005, 020-25537239

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)  
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पात्र तथा प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं / बोलीदाताओं से आरएफपी -08/2024-25 सह-उपार और पूल बायआउट समाधान की आपूर्ति, कार्यभार और रखरखाव के लिए मुहरबंद निविदा प्रस्ताव (तकनीकी बोली तथा वाणिज्यिक बोली) आमंत्रित करता है।  
विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofmaharashtra.in> पर 'डैटर सेवशन' में तथा और जेम पोर्टल <https://gem.gov.in> पर 'दिनांक 16.05.2024 से उपलब्ध रहेगी।  
संबंधित परिशिष्ट भी उपर्युक्त वेबसाइट पर जारी किए जायेंगे। बैंक बिना कोई कारण बताए आरएफपी प्रक्रिया रद्द या पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।  
दिनांक: 16.05.2024  
महाप्रबंधक और मुख्य सूचना अधिकारी

### Triveni TURBINES

Statement of Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024

(₹ in lakhs, except per share data)

Particulars	Quarter ended		Year Ended	
	31-Mar-2024 (Audited)	31-Mar-2023 (Audited)	31-Mar-2024 (Audited)	31-Mar-2023 (Audited)
Total Income from Operations	45,805	36,976	1,65,394	1,24,755
Net Profit/(Loss) for the period before tax	10,144	7,333	35,779	25,550
Net Profit/(Loss) for the period after tax	7,620	5,562	26,949	19,287
Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7,726	5,637	27,236	18,982
Equity Share Capital	3,179	3,179	3,179	3,179
Other Equity			92,801	72,856
Earnings per share of ₹ 1/- each (not annualised)				
(a) Basic (in ₹)	2.39	1.73	8.47	5.97
(b) Diluted (in ₹)	2.39	1.73	8.47	5.97

Notes :

- Summarised Standalone audited Financial Performance of the Company is as under :

Particulars	Quarter ended		Year Ended	
	31-Mar-2024 (Audited)	31-Mar-2023 (Audited)	31-Mar-2024 (Audited)	31-Mar-2023 (Audited)
Total Income from Operations	38,216	28,728	1,37,857	1,08,325
Profit/(Loss) before tax	7,998	5,101	28,373	19,537
Profit/(Loss) after tax	5,846	3,724	20,905	14,487
Total Comprehensive Income	6,013	3,865	21,204	13,944

- The Board of Directors has recommended payment of final dividend @ 130% (₹ 1.30 per equity share of ₹ 1 each) for the financial year 2023-24, in addition to the the interim and special dividend of 230% (₹ 2.30 per equity share of ₹ 1 each) paid during the current quarter. Final dividend is subject to approval of shareholders.
- The above is an extract of the detailed format of audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 are available on the Stock Exchange's websites ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and on the Company's website ([www.triveniturbines.com](http://www.triveniturbines.com)).

For TRIVENI TURBINE LIMITED  
Sd/-  
Dhruv M. Sawhney  
Chairman & Managing Director

Place: Noida (U.P)  
Date : May 16, 2024

Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase II Extension, Noida, U.P. - 201 305  
Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida - 201 301, U.P., India  
Website : [www.triveniturbines.com](http://www.triveniturbines.com), CIN : L29110UP1995PLC041834

## सवाल जवाब

# ‘हमारी सफलता में सभी का योगदान है’

बीएसई ने 15 मई, 2023 को अपने नए एमडी एवं सीईओ सुंदररामन राममूर्ति के नेतृत्व में इंडेक्स डेरिवेटिव को पुनः पेश किया था। एक साल में एक्सचेंज की बाजार भागीदारी शून्य से बढ़कर करीब 20 प्रतिशत हो गई। इंडेक्स को पुनः पेश किए जाने के ठीक 12 महीने बाद राममूर्ति ने सभी मॉडक को दिए साक्षात्कार में बताया कि किस तरह से एशिया के इस सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज ने तेजी से अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश:

बीएसई डेरिवेटिव की पुनः पेशकश से सफलता की राह मजबूत हुई है। इसकी क्या वजह है ?  
इस तरह की सफलता की किसी को उम्मीद नहीं थी। लोगों को आश्चर्य था, लेकिन मुझे किसी तरह का संदेह नहीं था। हालांकि मुझे यह बदलाव इतनी तेजी से होने की भी उम्मीद नहीं थी। जब मैं यहां शामिल हो रहा था, तो सोचा रहा था कि इसे सफल कैसे बनाया जाएगा। मेरा मानना है कि किसी संघटन को तभी सफल बनाया जा सकता है जिस वल आर्थिक उद्देश्य को पूरा करे। जब एनएएसई की शुरुआत हुई, तो बड़ा अंतर था।

सफलता का श्रेय समय को भी देते हैं ?  
हरेक कारक का सफलता में योगदान रहा है। बाजार, नियामक, मेरे बोर्ड, कर्मचारी, हमारी तकनीक, सभी इसमें मददगार हैं। सब कुछ सही समय पर एक साथ हुआ है। यह किसी एक आदमी का प्रयास नहीं है। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी। हम एक्सपायरी के दिन 4 अरब ऑर्डरों का प्रबंधन करते हैं। हमारी शुरुआती ऑर्डर क्षमता महज 10 करोड़ ऑर्डर थी। सभी के सहयोग के बिना इसे बढ़ाना संभव नहीं था।

अगले साल के लिए क्या लक्ष्य है ?  
आर में कई कि मैंने लक्ष्य तय नहीं किए हैं, तो यह झूट होगा। लेकिन मेरे लक्ष्य बाजार भागीदारी बढ़ाने से जुड़े हुए नहीं हैं। ये भविष्य में ज्यादा टिकाऊ उत्पाद बनाने से जुड़े हुए हैं। हमारे जैसे लोग आएंगे और जाएंगे। लेकिन बीएसई बना रहेगा। ऐसा 150 वर्षों से चल रहा है और कई सदियों तक चलता रहेगा। किसी मजबूत उत्पाद के लिए हमें अधिक गहराई और व्यापकता बनाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए, मुझे कम से कम 500 सदस्यों, 300 एपीआई, अन्य 10 लाख विशेष ग्राहक और न सिर्फ मोजूदा सप्ताह, बल्कि अगले सप्ताह और अगले महीने के लिए भी ज्यादा ऑपन इंटरनेट की जरूरत होगी। मैं 1 जुलाई से स्टॉक बायड शुरू कर रहा हूँ। हमें इसे उत्साहपूर्ण बनाने की जरूरत है। हमारा निवेशक समूह अधिक विविध एवं व्यापक होना चाहिए।

क्या निवेश बढ़ाने की योजनाएं बनाई हैं ?  
हमारे निवेश बढ़ेंगे। हम कोलीकेशन का दायरा बढ़ा रहे हैं। सभी सर्वर पुनः होंगे। मैं हर चीज का नवीनीकरण कर रहा हूँ। मानव संसाधन, फिजिकल इन्फ्रा. और तकनीकी इन्फ्रास्ट्रक्चर तीन मुख्य क्षेत्र हैं। मैं अपना सभी मुनाफा इन्वेस्टमेंट करूंगा और अपने शेयरधारकों को भुगतान के बाद आय बनाए रखूंगा। मेरा मकसद आने वाले वर्षों में एक मजबूत बीएसई तैयार करना है।

बीएसई ने सेबी के ऊंचे शुल्कों की वजह से ट्रांजेक्शन शुल्क बढ़ाए हैं। क्या इससे कारोबार प्रभावित होगा ?  
मैं नहीं मानता कि इससे कारोबार प्रभावित होगा, क्योंकि हमारे उत्पादों में तरलता की स्थिति अब मजबूत है।

## लॉजिस्टिक्स की बात, कॉन्कर के साथ

75 आजादी का अमृत महोत्सव

कॉन्कर CONCOR

ईएफसी सर्स्टेनल ग्रीन लॉजिस्टिक्स एलएनएच-ट्रक

फर्स्ट माइल लार्स्ट माइल (एफएमएलएन) सर्विस

टाइम टेबल डवल स्टैक टेन ऑन डीएफसी

राष्ट्र की सेवा में बुनियादी ढांचा

लॉजिस्टिक्स में डिजिटलीकरण

वेयरहाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स

देश भर में 66 टर्मिनल सहित 16 एएमएएलपी

### 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और बारह माह के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	एकल परिणाम				समेकित परिणाम			
		समाप्त तिमाही के लिए (31.03.2024) (लेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)	समाप्त बारह माह के लिए (31.03.2024) (लेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)	समाप्त तिमाही के लिए (31.03.2024) (लेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)	समाप्त बारह माह के लिए (31.03.2024) (लेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)
1	प्रचालन से कुल आय	2,317.63	2,165.99	8,632.49	8,103.40	2,325.13	2,184.33	8,653.41	8,169.12
2	अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर से पहले, अपवादात्मक तथा /अथवा अतिविशेष मदें और संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ / (हानि) का हिस्सा)	403.42	372.56	1,641.62	1,554.98	406.40	370.61	1,638.49	1,542.05
3	कर से पहले अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि), संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ / (हानि) का हिस्सा (अपवादात्मक तथा /अथवा अतिविशेष मदों के परचात)	396.28	371.31	1,634.48	1,553.73	406.40	370.61	1,638.49	1,542.05
4	कर के परचात अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक तथा /अथवा अतिविशेष मदों के परचात)	294.54	278.47	1,230.79	1,169.08	317.83	279.48	1,262.09	1,173.55
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर के परचात) तथा अन्य व्यापक आय (कर के परचात) सहित]	292.02	297.65	1,237.57	1,198.83	315.10	298.54	1,268.64	1,203.12
6	इक्विटी शेर पूंजी	304.65	304.65	304.65	304.65	304.65	304.65	304.65	304.65
8	आरक्षित (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पिछले वर्ष की लेखा परिक्षित बैलेंस शीट में दर्शाए गए के अनुसार			11,507.69	10,940.33			11,518.56	10,921.64
1	मूल (₹)	4.83	4.57	20.20	19.19	5.22	4.59	20.71	19.26
2	तनुकूल (₹)	4.83	4.57	20.20	19.19	5.22	4.59	20.71	19.26

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कंपनी के एकल और समेकित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 16 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में निवेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी के सांख्यिक लेखापरीक्षाकों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए उपर्युक्त परिणामों की लेखापरीक्षा की है।

दिखायी उपरोक्त परिणाम, सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किये गए 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों के वित्तुत प्रारूप का प्रकाश है। समाप्त तिमाही और वर्ष के वित्तीय परिणामों के पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट [www.concorindia.co.in](http://www.concorindia.co.in) पर उपलब्ध हैं।

निवेशक मंडल के लिए और की ओर से  
- हस्ता. -  
(मनोज कुमार दूबे)  
निवेशक (निवत)  
डीआरएनः 07518387

## भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का एक नवत उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: सी-3, कानका भवन, मधुरा रोड, अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110076  
ई-मेल: [investorrelations@concorindia.com](mailto:investorrelations@concorindia.com), वेबसाइट: [www.concorindia.co.in](http://www.concorindia.co.in), टेलीफोन: 011-41673093, 49512150/60  
हमें फॉलो करें f @OfficialCONCOR @concor\_india co.p@concorindia.com



# Hindustan Zinc reaches out to govt with a new demerger plan

**EXPLORING OPTIONS.** Minority shareholder Mines Ministry 'prioritises' strategic stake offload over a demerger

**Abhishek Law**  
New Delhi

Vedanta-owned Hindustan Zinc has reached out to its largest minority shareholder, Mines Ministry, with a revised demerger proposal that it expects will "unlock shareholder value". The Ministry though is prioritising "strategic stake offload" in the company, over going ahead with the proposed demerger.

The Mines Ministry holds 29.54 per cent in the integrated zinc and silver-maker with at least three government representatives on Board, while Vedanta owns the majority 64.92 per cent.

Vedanta promoter Anil Agarwal's daughter, Priya Agarwal

Hebbar, heads Hindustan Zinc. "There have been a series of letters. And Hindustan Zinc is trying to reach out to the Ministry with a revised demerger plan. The details are yet to be discussed. So far, we are yet to give time for the meeting," an official in the know told *businessline*.

For any demerger proposal of the zinc-maker to go through, there needs to be a green-light from majority of the minority shareholders (in this case the Ministry).

Incidentally, are-worked proposals creating two companies - zinc & lead, and the second one for silver.

Hindustan Zinc did not respond to queries from *businessline*. The initial demerger pro-



**RE-WORKED PROPOSALS.** HZL's re-worked plan features creating two firms; one for zinc & lead and the other for silver

posal - wherein Hindustan Zinc was to create three separate legal entities - one for zinc and lead, one for silver, and ultimately a third for the recycling business - and list them, was shot-down.

While rejecting this demerger proposal, it was also pointed out that the company was run-

ning "profitably as a single unit". There was no guarantee that post demerger, different companies will continue to have a similar valuation or be equally profitable. "Right now, the Ministry isn't too keen to explore any demerger. Rather the focus is on disinvesting its stake," a Ministry official said.

A second Mines Ministry official said that roadshows have been carried out last month (April) and the government was "keen to offload its stake" at the "right time". Markets continue to be volatile, because of which the offer for sale (OFS) has reportedly been held back.

**MARKET STUDIES**

"We are studying the market. But right now, conditions remain volatile. So, an OFS should come at the right time which allows us maximum value. But we are carrying out roadshows to gauge investor interest and the market mood," the official said.

A call is yet to be taken whether the entire stake is offloaded at "one go" or be done via smaller tranches.

# Vedanta to raise ₹8,500 crore, pay dividend of ₹11 per share

**Suresh P. Iyengar**  
Mumbai



Anil Agarwal-led Vedanta plans to raise ₹8,500 crore for investing in new projects and has also announced an interim dividend of ₹11 per equity share for FY25 that will lead to an outflow of ₹4,089 crore.

The company's board of directors in a meeting held on Thursday approved the proposals and set May 25 as the record date for dividend payment.

Vedanta plans to set up continuous cast copper rod plant in Saudi Arabia through its subsidiary Vedanta Copper International (VCI).

The company is in the process of establishing a

modern copper rod manufacturing facility with capacity of 1.25 lakh tonnes per annum in Saudi Arabia to explore more growth opportunities in new geographies. Post the investment, VCI will become a wholly-owned subsidiary of the company. VCI will have share capital of Saudi riyal of 1 lakh (about ₹22 lakh).

Incidentally, the Supreme Court early this year dismissed Vedanta group

company Sterlite Copper's plea to reopen its Sterlite Copper smelter plant in Tamil Nadu's Thoothukudi. The plant has remained shut since 2018. The Group had put the plant on the block but could not find a suitor. Following this, it attempted to shift the plant to other States but found little success.

Late last year, the Zambian government signed an agreement to restore the ownership of Konkola Copper Mines to the Group's holding company Vedanta Resources. The copper assets were seized by the Zambian government in 2019. The agreement led to withdrawal of all legal challenges in the Court.

Shares of the company were down one per cent at ₹433 on Thursday.

# Indian exporters hopeful of gaining from US-China tariff war

**Amiti Sen**  
New Delhi

Indian exporters are hopeful that the US decision to impose penal tariffs on certain Chinese imports may result in opportunities for them as they could step in to meet some of the supply gap. This would be more so if Beijing retaliates, and it turns into a full-blown tariff war.

Exporters' body FIEO simultaneously cautioned that the threat of dumping from China cannot be ruled out and the government must keep a strict watch and take appropriate steps if needed.

"The US move will start the tariff war between the two countries as retaliation is expected from China. Right now, about \$18 billion worth of exports from China would be affected out of a total of \$420 billion (China's exports to the US). This is a little over 4 per cent and thus marginal. But this will increase in times to

come. This provides opportunity to India and other competitors to chip in to fill the supply gap," pointed out FIEO President Ashwani Kumar at a media interaction on Thursday.

Going by the present set of import duties imposed by the US on China, India has opportunities in facemasks, PPE, syringes & needles, medical gloves, aluminium and iron & steel, per a list prepared by FIEO.

**US TARIFFS**

Earlier this week, US President Joe Biden announced heavy penal tariffs on China across strategic sectors such as steel and aluminium, semiconductors, electric vehicles, batteries, critical minerals, solar cells, ship-to-shore cranes and medical products. Once China retaliates and imposes penal duties on US products, Indian exporters may have additional opportunity in China, but it would depend on whether market access is provided by China for these products, exporters

said. "China's unfair trade practices concerning technology transfer, intellectual property, and innovation are threatening American businesses and workers. China is also flooding global markets with artificially low-priced exports. In response to China's unfair trade practices and to counteract the resulting harms, today, President Biden is directing his Trade Representative to increase tariffs under Section 301 of the Trade Act of 1974 on \$18 billion of imports from China to protect American workers and businesses," per a statement issued by the White House.

According to FIEO, China is sitting on overcapacity in many sectors and thus the threat of dumping, could not be ruled out, when an important market was closed for its exports.

"I am sure industry, and the government will be keeping a close watch on imports and if surge or dumping happens, DGTR will take appropriate action to safeguard our industry," Kumar said.

## INDIA MOTOR PARTS & ACCESSORIES LIMITED

CIN : L65991TN1954PLC000958

Regd. & Admn. Office : 46, Whites Road, Chennai 600 014. Website : www.impal.net; E-mail id : secy@impal.net

**EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024**

(₹. in Crores)

Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
	Quarter ended		Year ended		Quarter ended		Year ended	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
Total income from operations	175.08	166.22	724.77	707.59	178.56	169.84	741.16	725.92
Net Profit / (Loss) for the period before tax	24.02	32.52	89.16	91.78	24.63	33.26	91.02	93.72
Net Profit / (Loss) for the period after tax	19.33	26.02	72.52	73.67	19.82	25.43	73.92	75.14
Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	182.78	3.70	730.60	168.88	183.27	3.11	732.00	170.35
Paid-up Equity Share Capital (Face value per share - Rs. 10/- each)	12.48	12.48	12.48	12.48	12.48	12.48	12.48	12.48
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per the latest Audited Balance Sheet	0.00	0.00	2052.11	1351.46	0.00	0.00	2057.69	1355.64
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised for Quarterly numbers): Basic & Diluted	15.49	20.85	58.11	59.03	15.88	20.37	59.23	60.21
Earnings Per Share in Rupees (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised for Quarterly numbers): Basic & Diluted	15.49	20.85	58.11	59.03	15.88	20.37	59.23	60.21

Notes:

- The results were reviewed by the Audit Committee of the Board and subsequently approved by the Board of Directors at their meeting held on May 16, 2024. These financial results have been audited by the Statutory Auditors of the Company.
- The Board of Directors have recommended a final dividend of Rs. 18/- per equity share, subject to approval by the Shareholders at the ensuing Annual General Meeting. If approved, the total dividend for the year 2023-24 will aggregate to Rs. 27/- per share including the interim dividend of Rs. 9/- per share already paid.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Year ended March 31, 2024 Financial Results filed with the National Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Financial Results will be made available on the National Stock Exchange website (www.nseindia.com) and on Company's website (www.impal.net).

Place : Chennai  
Date : 16.05.2024

For INDIA MOTOR PARTS & ACCESSORIES LIMITED  
N. KRISHNAN  
Managing Director  
DIN: 00041361



Statement of Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024

(₹ in lakhs, except per share data)

Particulars	Quarter ended		Year Ended	
	31-Mar-2024 (Audited)	31-Mar-2023 (Audited)	31-Mar-2024 (Audited)	31-Mar-2023 (Audited)
Total Income from Operations	45,805	36,976	1,65,394	1,24,755
Net Profit/(Loss) for the period before tax	10,144	7,333	35,779	25,550
Net Profit/(Loss) for the period after tax	7,620	5,562	26,949	19,287
Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7,726	5,637	27,236	18,982
Equity Share Capital	3,179	3,179	3,179	3,179
Other Equity			92,801	72,856
Earnings per share of ₹ 1/- each (not annualised)				
(a) Basic (in ₹)	2.39	1.73	8.47	5.97
(b) Diluted (in ₹)	2.39	1.73	8.47	5.97

Notes :

1. Summarised Standalone audited Financial Performance of the Company is as under :

Particulars	Quarter ended		Year Ended	
	31-Mar-2024 (Audited)	31-Mar-2023 (Audited)	31-Mar-2024 (Audited)	31-Mar-2023 (Audited)
Total Income from Operations	38,216	28,728	1,37,857	1,08,325
Profit/(Loss) before tax	7,998	5,101	28,373	19,537
Profit/(Loss) after tax	5,846	3,724	20,905	14,487
Total Comprehensive Income	6,013	3,865	21,204	13,944

2. The Board of Directors has recommended payment of final dividend @ 130% (₹ 1.30 per equity share of ₹ 1 each) for the financial year 2023-24, in addition to the the interim and special dividend of 230% (₹ 2.30 per equity share of ₹ 1 each) paid during the current quarter. Final dividend is subject to approval of shareholders.

3. The above is an extract of the detailed format of audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 are available on the Stock Exchange's websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.triveniturbines.com).

For TRIVENI TURBINE LIMITED

Place: Noida (U.P)  
Date : May 16, 2024

Sd/-  
Dhruv M. Sawhney  
Chairman & Managing Director

Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase II Extension, Noida, U.P. - 201 305  
Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida - 201 301, U.P., India  
Website : www.triveniturbines.com, CIN : L29110UP1995PLC041834



**SURYODAY**  
A BANK OF SMILES

**SAVE MORE. EARN MORE.**

Get up to **7.5% p.a.** & more on **SAVINGS ACCOUNT**  
Get up to **9.1% p.a.** for Senior Citizens **FIXED DEPOSIT**

### AUDITED FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR FY24

Gross Advances	₹8,650* CRORES	41.5% ▲	Disbursement	₹6,919 CRORES	36.1% ▲
Deposit	₹7,777 CRORES	50.5% ▲	PAT	₹216 CRORES	178% ▲
NIM	9.8%	34 bps ▲	RoE	12.9%	784 bps ▲
Pre-Pop*	₹454 CRORES	34.5% ▲	Asset Quality	GNPA 2.8% 30 bps ▼ NNPA 0.8% 68 bps ▼	

\*Excluding CGFMM is ₹507 Crores

(₹ in Crores)

Particulars	Year Ended March 31, 2024	Year Ended March 31, 2023
1. Interest Earned	1,588.7	1,183.7
2. Total Income	1,808.1	1,281.1
3. Interest Expended	626.5	437.1
4. Operating Expenses	675.1	506.5
5. Operating Profit before Provisions, Contingencies & CGFMM(2-3-4)	506.5	337.5
6. Operating Profit before Provisions and Contingencies	453.9	337.5
7. Provisions (other than tax) and Contingencies	166.3	236.6
8. Profit (+)/ Loss (-) for the period (5-6)	287.6	100.9
9. Tax expense	71.6	23.2
10. Net Profit (+)/Loss (-) for the period (7-8)	216.0	77.7
11. Ratios		
(i) Debt Equity Ratio**	1.55	1.96
(ii) NPA Ratios		
a) % of Gross NPA	2.8%	3.1%
b) % of Net NPA	0.8%	1.5%
RoA	2.1%	0.9%
RoE	12.9%	5.1%

\*Includes IBPC of ₹ 400 Crores

\*\*Debt represents total borrowings excluding deposits | #Excluding Technical Write-off

This is a voluntary information in addition to statutory submission/publications made as per requirements.

Navi Mumbai  
9 May, 2024

Baskar Babu Ramachandran  
Managing Director and CEO  
DIN: 02303132

Registered & Corporate Office: Suryoday Small Finance Bank Limited

1101, Sharada Terraces, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400 614

suryodaybank.com | CIN:L65923MH2008PLC261472 | Follow us: [Social Media Icons]

For information on banking products, give a missed-call ☎ 99308 99888